



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक परीक्षा



(परीक्षार्थी को इस परीक्षा का नाम जानना चाहिये)

Candidate's Roll No. In English
(In Figures)

--	--	--	--	--	--	--	--

(In Words) _____

परीक्षार्थी का नामांक हिन्दी में
शब्दों में _____

प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी
(परीक्षक के उपयोग हेतु)

प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक	प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18		36	
		प्रश्नों की कुल संख्या	36
		प्रश्नों का कुल योग (Round off)	
		प्रश्नों की संख्या	
		शब्दों में	

नोट - परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखें।

माध्यम - हिन्दी अंग्रेजी

विषय - Accountancy

परीक्षा का दिन - _____

दिनांक - _____

नोट :- परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं। जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें व पालना अवश्य करें।

- परीक्षक हेतु निर्देश :- (1) परीक्षक को उपरोक्त सारणी अनुक्रम प्राप्तांक भरना अनिवार्य है, अन्यथा नियमानुसार रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।
(2) परीक्षक उत्तर पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के बायाँ और दाहिने किनारे में लाल इक से अंक प्रदत्त करें।
(3) कुल योग भिन्न में प्राप्त होने पर उसे पूर्णांक में ही प्रदर्शित कर अंकित करें (उदाहरणार्थ 15 1/4 को 16 1/2 को 18 1/4 को 20)

परीक्षक के हस्ताक्षर : _____
प्राप्तांक

--	--	--	--	--	--	--	--

भाग द्वारा
प्रश्न अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

1. साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की अधिकतम संख्या का कोई उल्लेख नहीं है।
परंतु कंपनी अधिनियम 2014 के अंतर्गत साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 तक सीमित कर दी गई है जो कि पूर्व में 100 थी।

2.

Journal

Date	Particular	L.f.	Dr.	Cr.
-	Plant a/c Dr. To Revaluation a/c (Being value of plant increased)		5000	5000
-	Revaluation To All part's Cap./current (Profit being distributed)		5000	5000

3. संयुक्त बीमा पॉलिसी खाता चिठ्ठे में समर्पण मूल्य पर दिखाया जाता है।

4. (i) समयावधि के आधार पर
(ii) विक्रय के आधार पर

P.T. 0



परीक्षक द्वारा प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

5. पुस्तकों में न दिखाये गये दायित्व का बुगतान न दिखाई गई संपत्ति से करने पर कोई भी लेखा सविष्टि नहीं होगी।

6. सारणी F के अनुसार अग्रिम प्राप्त मांग पर व्याज की निश्चित दर 12% होगी।

7.

Journal

Date	Particulars	Lf.	Dr.	Cr.
-	Bank a/c		110	
	Loss on issue of Debentures a/c		20	
	To 12% Debenture			100
	To Security premium			10
	To Premium on Red. of Deb.			20
	(Being issued on Red.)			

Notes:- यह प्रक सविष्टि 2 को मिलाकर की गई है:-

1. Bank a/c Dr. 110
 To Deb. Application 110

2. Deb. Application 110
 Loss on issue of Deb. 20
 To Sec. pre. 10
 To 12% Deb. 100
 To Pre. on Red. 20



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त क्रम

परीक्षार्थ उत्तर

8. वह बिल को बैंक से भुनाने पर दिये जाने वाले बिल्टे को
में दिखायेंगा।
J.V. with co-venturers etc

9. Journal

Date	Particulars	Rs.	Paise	Dr.	Cr.
-	Workmen Compensation Asset			10,000	
	To A's Cap/Current				6000
	To B's Cap/Current				4000
	(Being WCR divided in 2:2 Ratio)				

अंतर का आधार	संयुक्त साहस	साझेदारी
अधिनियम	इसके लिए कोई विशेष अधिनियम लागू नहीं होता	साझेदारी की स्थापना भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत की जाती है।
सदस्य संख्या	संयुक्त साहस में न्यूनतम 2 तथा अधिकतम सदस्य संख्या पर कोई भी पाबंदी नहीं है।	साझेदारी में न्यूनतम 2 सदस्य व सामान्य साझेदारी में 20 व बैंकिंग में 10 अधिकतम हैं।
समयावधि	यह निश्चित समय व निश्चित कार्य के लिए स्थापित की जाती है।	यह दीर्घ अवधि तक व्यवसाय चलाने हेतु स्थापित की जाती है।
सदस्य	इसमें भाग लेने वाली साहसी हैं।	इसमें भाग लेने वाले साझेदार हैं।



प्रश्न क्र. द्वारा
प्रश्न क्र. संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

11. प्रेषक की पुस्तक में बीजक मूल्य में शामिल लाभ के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रविष्टियाँ:-

(i) बीजे गये माल में शामिल लाभ हेतु -

Goods sent on consignment a/c Dr.

To consignment a/c

(ii) प्रारंभिक रहतिये में शामिल लाभ हेतु -

Stock Reserve a/c Dr.

To consignment a/c

(iii) अंतिम रहतिये में शामिल लाभ हेतु -

Consignment a/c Dr.

To Stock Reserve a/c

(iv) असामान्य खानि में शामिल लाभ हेतु -

Consignment a/c Dr.

To Abnormal loss a/c

12. calculation of general commission:-

goods sold = 30,000

+ 40,000

= 70,000 $\times \frac{5}{100}$

= 3500



परीक्षा द्वारा प्रदत्त अंक

प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

Calculation of overriding commission :-

$$\begin{aligned} \text{Total Sale} &= 70,000 \\ &- 60,000 \\ &\underline{\quad 10,000} \end{aligned}$$

$$= \frac{10,000 \times 20}{100}$$

$$= \underline{\underline{2000}}$$

$$\begin{aligned} \text{Total Commission} &= \text{General} + \text{overriding} \\ &= 3500 + 2000 \\ &= \underline{\underline{5500}} \end{aligned}$$

13. (1) चालू वर्ष का बकाया वेतन - इसे प्राप्त व भुगतान खाते में नहीं दिखाया जायेगा।

(2) स्थायी संपत्ति की बिक्री पर राशि - इसे प्राप्त व भुगतान खाते के प्राप्त पक्ष या दायें पक्ष में दिखायेंगे।

Receipt	Amount	Payment	Amount
TO Sale from Assets	-		

(3) पुस्तक सरीद जकाद - इसे प्राप्त व भुगतान खाते के भुगतान पक्ष या दायें पक्ष में दिखायेंगे।

Receipt	Amount	Payment	Amount
		By book purchased	-



प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(4) विनियोगों पर अर्जित बकाया ब्याज - इसे प्राप्ति व भुगतान खाते में नहीं दिखायेंगे।

14. (1) वसीयत से प्राप्ति :- यह एक पूंजीगत प्राप्ति है अतः इसे केवल चिट्ठे में पूंजीकोष में जोड़कर या अलग से दिखायेंगे।

Balance sheet

Liabilities	Amount	Assets	Amount
Capital fund + Legacies	-		

(2) प्रवेश शुल्क :- यह संस्था पर निर्भर है कि प्रवेश शुल्क को पूंजीगत माना जाये या आयगत अथवा दोनों ही। आयगत मानने पर इसे आय-व्यय खाते के एक पक्ष में दर्शायेंगे।

Income & Expenditure a/c

Expenditure	Amount	Income	Amount
		By Entrance fees	-

पूंजीगत मानने पर इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखायेंगे।

B/s.

Liabilities	Amount	Assets	Amount
Entrance fees	-		

प्रश्न संख्या

परीक्षाधी उत्तर

आयगत व पुंजीगत दोनों मानने पर, आयगत माना गया भाग आय-व्यय खाते में व पुंजीगत माना गया भाग चिट्ठे में दिखायेंगे।

15

PEL a/c

Particular	Amount	Particular	Amount
TO Int. on Loan	1200	By Profit	49,200
TO Net profit	48000		
	49200		49,200

PEL Appropriation a/c

Particular	Amount	Particular	Amount
TO Int. on Cap		By net profit	48,000
Rashmi 2500			
Pintu 1500	4000		
TO Commission			
Rashmi	4000		
TO Commission			
Pintu	4000		
TO Reserve	3600		
TO Rashmi's cap	16200		
TO Pintu's cap	16200		
	48000		48,000

Working note:-

$$\underline{\underline{\text{Int. on Loan of Rashmi}}} = \frac{20,000 \times 6}{100} \times \frac{12}{12}$$

$$= 1200$$



परीक्षाक द्वारा प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

Int on Cap

$$\text{Rashmi} = \frac{50,000 \times 5}{100} = 2500$$

$$\text{Pintu} = \frac{30,000 \times 5}{100} = 1500$$

$$\underline{\underline{\text{Commission to Rashmi} = \frac{2,00,000 \times 2}{100} = 4000}}$$

$$\underline{\underline{\text{Commission to Pintu} = \frac{40,000 \times 10}{100} = 4000}}$$

$$\underline{\underline{\text{General Reserve :- } \frac{36,000 \times 10}{100} = 3600}}$$

At End, profit of 32,400 is divided in Rashmi and Pintu in Equal Ratio.

16.

Joint Life Policy etc

Date	Particular	Amount	Date	Particular	Amount
1.4.13	TO Cash	7000	31.3.14	By PEL	7000
1.4.14	TO Cash	7000	31.3.15	By PEL	4000
			31.3.15	By baldd	3000
1.4.15	TO baldd	3000	31.3.16	By PEL	2000
1.4.15	TO Cash	7000	31.3.16	By baldd	8000
1.4.16	TO baldd	8000	31.3.17	By PEL	5,000
1.4.16	TO Cash	7000	31.3.17	By baldd	10,000



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर					
		1.4.17	TO bal b/d	10,000	1.7.17	By Ins. Premium	1,00,000
		1.4.17	TO Cash	7,000			
		31.3.18	TO P's Cap/Current	33,200			
		31.3.18	TO Q's Cap/Current	33,200			
		31.3.18	TO R's Cap/Current	16,600			
				1,00,000			1,00,000

17.

Realisation a/c

Particular	Amount	Particular	Amount
TO Sundry Assets	1,00,000	By Creditors	63,000
TO Cash (Paid to Creditors)	63,000	By Cash (from Assets)	40,000
		By R's Capital	20,000
		By S's Capital	20,000
		By J's Capital	20,000
		(Being Loss divided)	
	1,63,000		1,63,000

Part's Cap. a/c

Date	Particular	Dr	R	S	T	Date	Particular	Dr	R	S	T
	TO bal b/d				3,000		By bal b/d	20,000	20,000		
	TO Realisation.	20,000	20,000	20,000			By R's cap.				11,500
	TO J's cap.	11,500	11,500				By S's cap.				11,500
							By Cash	11,500	11,500		
		31,500	31,500	23,000				21,000	31,500	23,000	



परीक्षक द्वारा
उदित अंक

जिन
सख्या

परीक्षार्थी उच्च

Cash ac

Date	Particular	Amount	Date	Particular	Amount
-	To Realisation (from Assets)	40,000	-	By Realisation (To Creditors)	63,000
-	To R's Cap. ac	11,500			
-	To S's Cap. ac	11,500			
		63,000			63,000

18.

माह

शीर्षक

उपशीर्षक

(1) Unclaimed dividend	Current Liabilities	Other current Lia.
(2) Security Premium	Share holder fund.	Share Capital-Reserve & Surplus
(3) Proposed dividend	Current Liabilities	Short term Provisions
(4) Acceptances	Current Liabilities	Trade payable
(5) Debenture	Non current Liabilities	Long term Borrowing
(6) Calls-in-advance	Current Liabilities	Other current Lia.
(7) Provision for tax	Current Liabilities	Short term Provisions
(8) Prepaid Insurance	Current Assets	Other current Assets



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक

प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

19.

In the book of K

Joint venture with 'V' a/c

Particular	Amount	Particular	Amount
TO Cash (Purchased)	40,000	By Cash (Sold)	45,000
TO P&L	11,500	By Purchase	8,000
TO Cash/balcd	1,500		
	53,000		53,000

In book of V

Joint Venture with 'K' a/c

Particular	Amount	Particular	Amount
TO Cash (Purchase)	60,000	By Cash (Sold)	70,000
TO P&L	11,500	By Cash/balcd	1,500
	71,500		71,500

Memorandum J.V. a/c

Particular	Amount	Particular	Amount
TO Cash (Purchase)	40,000	By Cash (sold)	45,000
to Cash	60,000	By Cash	70,000
TO P&L		By Purchase	8,000
K	11,500	(goods taken)	
V	11,500		
	23,000		
	1,23,000		1,23,000



परीक्षा क्रमांक
परीक्षा संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

20. calculation of Abnormal Loss:-

$$\begin{aligned}
 \text{Goods sent} &= 2,000 \times 100 \\
 &= 2,00,000 \\
 \text{Expenses of Consigner} &= + 5,000 \\
 &= 2,05,000
 \end{aligned}$$

$$\text{Loss} = \frac{2,05,000 \times 10}{100}$$

$$= 20,500$$

- Received from sale

$$= - 5,000$$

$$\left(10 \times 2000 = 20000 \times \frac{1}{4} \right) = 5000$$

$$15,500$$

- from Ins. Company

$$- 10,000$$

$$5,500$$

Net Loss

calculation of unsold stock:-

$$\text{before reaching} = \frac{2,05,000 \times 20}{100}$$

$$= 41,000$$

After reaching

$$= \frac{1800 \times 20}{90}$$

$$= 400$$

$$\begin{aligned}
 \text{Total unsold stock} &= 41,000 + 400 \\
 &= 41,400
 \end{aligned}$$

परिचायक द्वारा
प्रयुक्त अंकपत्र
संख्या

परिभाषी उत्तर

21.

Income & Expenditure a/c

Particulars	Amount	Particulars	Amount
-	-	-	-

Balance Sheet as on 31.3.17

Liabilities Particulars		Amount	Assets		Amount
Grave fund	3,00,000		12% Investment	1,50,000	
- Exp.	-1,00,000		Accrued Int.	3,000	
	2,00,000				
+ Donation	+ 40,000				
+ Table Tennis	+ 1,00,000				
+ Int.	+ 15,000				
+ Acc. Int.	+ 3,000	3,58,000			

Working Note:-

$$\text{Int. on Investment} = 1,50,000 \times \frac{12}{100}$$

$$= 18,000$$

$$- 15,000$$

$$\text{Accrued Int.} = 3,000$$



परीक्षा केंद्र
प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

22

Revaluation a/c

Particulars	Amount	Particulars	Amount
To Patent	10,000	By Building	5000
		By Typewriter	2000
		By A's cap.	2000
		By B's cap.	1000
	10,000		10,000

Part's capital

Particulars	A	B	Cl. a/c	Particulars	A	B	C
To Rev.	2000	1000		By bal b/d	40,000	30,000	
To bal b/d	54,000	32,000	17,200	By General Reserve	6,000	3,000	
			10,000	By Goodwill	10,000		
	56,000	33,000	17,200	By Cash	56,000	33,000	17,200

Balance sheet

Liabilities	Amount	Assets	Amount
Capital		Bank	
A 54,000		(10,000 + 10,000 + 17,200)	37,200
B 32,000		Debtor	30,000
C 17,200	1,03,200	Stock	20,000
Creditor	21,000	Building	35,000
		Typewriter	2,000
	1,24,200		1,24,200

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

Working note :-

Profit of Rev. = 3,000 is divided into A & B
in 2:1 Ratio

Sacrificing Ratio = Old Ratio - new Ratio

$$A = \frac{2}{3} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$

$$B = \frac{1}{3} - \frac{2}{6} = \frac{0}{6}$$

Goodwill :-

Goodwill 10,000

To A's Capital 10,000

Capital of C :-

Adjusted Capital of A & B
their Ratio

$$= 54,000 + 32,000$$

$$= 83,000 \times \frac{5}{6} \left(1 - \frac{1}{6}\right)$$

$$= \underline{17,200}$$

$$\begin{aligned} \text{Bank} &= \text{Op bal} + \text{Goodwill} + \text{Capital} \\ &= 10,000 + 10,000 + 17,200 \\ &= 37,200 \end{aligned}$$



परीक्षक द्वारा प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

23

Journal of P. Ltd.

Date	Particulars	Lf	Dr.	Cr.
	- Bank		3,30,000	
	To Eq. Sh. Application			3,30,000
	- Eq. Sh. Application a/c		3,30,000	
	To Eq. Sh. Capital a/c			2,00,000
	To Sec. premium			80,000
	To Eq. Sh. Allotment			20,000
	To Eq. Sh. I call			30,000
	To Bank a/c			
	- Eq. Sh. Allotment a/c		8,00,000	
	To Eq. Sh. Capital a/c			4,00,000
	To Sec. premium			4,00,000
	Bank		7,20,000	
	To Eq. Sh. Allotment			7,20,000
	Eq. Sh. I & final call a/c		14,00,000	
	To Eq. Sh. Capital			14,00,000
	Bank		13,80,000	
	To Eq. Sh. I & final call			13,80,000
	Total		49,60,000	49,60,000



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक

प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

[खण्ड - ब]

24.

द्वैतज विश्लेषण

लेखत विश्लेषण

1. यह तुलना का एक अंग है

यह तुलना का एक आधार है

2. इसमें दो या अधिक अवधि के विकरणों का विश्लेषण किया जाता है जैसे - तुलनात्मक विश्लेषण

इसमें एक अवधि के विकरणों का लेखत विश्लेषण किया जाता है जैसे - समानाकार विश्लेषण

25.

Current Liabilities = 1,50,000

Current Ratio = 3:1

Current Assets = ?

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

$$\frac{3}{1} = \frac{x}{1,50,000}$$

$$4,50,000 = x \text{ (Current Liabilities)}$$

26.

वर्ष	परिचालन से आय	परिवर्तन	प्रतिशत
2012-13	20	-	-
'13-14	22	2	10%
14-15	25	5	25%
15-16	28	8	40%
16-17	30	10	50%



परीक्षा क्र. 101
प्रश्न संख्या

पूर्णांक उत्तर

$$\left[\text{घट्टि प्रतिशत} = \frac{\text{आधार वर्ष की तुलना में कमी/वृद्धि} \times 100}{\text{आधार वर्ष की राशि}} \right]$$

27. Total Revenue = 2,00,000
Cash Rev. = 30,000

Then Credit Rev. = 1,70,000
- S/R = -10,000
Net Credit Rev. = 1,60,000

Op. Debtor = 50,000
Closing Debtor = 30,000

Trade Receivable Turnover Ratio = $\frac{\text{Net Credit Sale}}{\text{Average I.R}}$

$$= \frac{1,60,000}{\frac{50,000 + 30,000}{2}}$$

$$= \frac{1,60,000}{40,000}$$

$$= 4 \text{ times}$$

द्वारा अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उच्चर			
28.	Particular				
Statement of P&L					
Particular	Note no.	31.3.16	31.3.17	% of 31.3.16	% of 31.3.17
I Revenue	-	20,00,000	20,00,000	100%	100%
II Expenses:-					
(A) Purchase of stock in Trade		12,00,000	16,00,000	60%	66.67%
(B) Change in Inventories		2,00,000	2,00,000	10%	8.33%
(C) Depreciation		2,40,000	2,00,000	12%	8.33%
(d) other Expenses.		1,60,000	1,00,000	8%	4.16%
Total Exp.		18,00,000	21,00,000	90%	87.5%
III Profit before tax		2,00,000	3,00,000	10%	12.5%
IV - tax		60,000	90,000	3%	3.75%
V Profit after tax		1,40,000	2,10,000	7%	8.75%

29. लेखांकन में नैतिकता के 4 स्रोत :-

(i) कानून प्रणाली :-

→ किसी भी देश में प्रचलित कानून प्रणाली नियम, दर्शन आदि व्यक्तियों के व्यवहार में नैतिकता लाने का कार्य करते हैं।

(ii) धर्म :-

→ किसी भी समाज के धर्मों में लिखी गई मूलभूत मान्यताएँ, दर्शन, परंपराएँ भी व्यक्ति को नैतिकता अपनाने

परीक्षक द्वारा
प्रश्न अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

की सीख देती है।

(iii) आनुवंशिक धरोहर :-

विभिन्न जीव-विज्ञानियों ने शोध उपरंत ज्ञात किया है नैतिकता के गुण व्यक्तियों में आनुवंशिक भी होते हैं।

(iv) सांस्कृतिक अनुभव :-

विभिन्न देशों में प्रचलित सांस्कृतिक मान्यताएँ, अनुभव आदि भी नैतिकता अपनाने का संदेश देते हैं।

$$\begin{aligned} \text{30. चालू संपत्तियाँ} &= \text{स्वधन} + \text{व्यापारिक प्राप्तियाँ} + \text{नकद} \\ &= 2,00,000 + 1,50,000 + 50,000 \\ &= 4,00,000 \end{aligned}$$

$$\text{चालू दायित्व} = 1,00,000$$

$$(i) \text{ चालू अनुपात} = \frac{\text{चालू संपत्तियाँ}}{\text{चालू दायित्व}}$$

$$= \frac{4,00,000}{1,00,000}$$

$$= 4:1$$

$$(ii) \text{ त्वरित अनुपात} = \frac{\text{तरल संपत्तियाँ}}{\text{चालू दायित्व}}$$

$$= \frac{(4,00,000 - 2,00,000)}{1,00,000}$$

$$= \frac{2,00,000}{1,00,000}$$

$$= 2:1$$

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक:प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(iii) ऋण समता अनुपात =

$$= \frac{\text{Total Debt}}{\text{Eq. sh. fund}}$$

$$= \frac{3,00,000 \text{ (Debt)} + 1,00,000 \text{ (C.D.)}}{5,00,000 + 1,00,000 + 1,00,000}$$

$$= \frac{4,00,000}{7,00,000}$$

$$= 0.57:1$$

(iv) स्वामित्व अनुपात

$$\text{Total Assets} = \text{Non current Assets} + \text{Current Assets}$$

$$= 7,00,000 + 4,00,000$$

$$= 11,00,000$$

$$= \frac{\text{Shareholder fund}}{\text{Total Assets}}$$

$$= \frac{7,00,000}{11,00,000}$$

$$= 0.63:1$$

(v) शोधन क्षमता अनुपात

$$= \frac{\text{Total Debt}}{\text{Equity of Total Assets}}$$

$$= \frac{4,00,000}{11,00,000}$$

$$= 0.36:1$$

समाप्त